



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]
No. 88]नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 19, 2009/माघ 30, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009/MAGHA 30, 1930वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

सं. 15/2009-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 102(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है एतद्वारा निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पद्धति से मामलानुसार संशोधित अथवा पुनः संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	92/2004-सीमाशुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 [सा.का.नि. संख्या 605(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के जरिए]	अधिसूचना में आरम्भिक पैरा में,— (1) खंड (i) में “और नीति के पैरा 3.12.4 में यथा ऐसी मदें जिनके आयात की अनुमति नहीं है” शब्दों, और आंकड़ों की जगह निम्नलिखित शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “और प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37 ख के दृष्टिकोण से ऐसी मदें जिनके आयात की अनुमति नहीं है”। (2) खंड (ii) में “नीति के पैरा 3.12.4 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी मदें जिनके आयात की अनुमति नहीं है” शब्दों और आंकड़ों की जगह निम्नलिखित शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “और प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37 ख के दृष्टिकोण से ऐसी मदें जिनके आयात की अनुमति नहीं है”।

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 41/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 9 मई, 2005
[सं. सा.का.नि. 282 (अ), दिनांक 9 मई, 2005
के जरिए] | उक्त अधिसूचना में आरम्भिक पैरा में “जो मुक्त आयात के योग्य हैं” शब्दों का विलोप किया जाएगा। |
| 3. | 73/2006-सीमाशुल्क, दिनांक 10 जुलाई, 2006
[सं. सा.का.नि. 408 (अ), दिनांक 10 जुलाई,
2008 के जरिये] | उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण में खंड (i) में “विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत जो उन्मुक्त आयात के योग्य हैं” शब्दों का विलोप किया जाएगा। |
| 4. | 90/2006-सीमाशुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2006
[सं. सा.का.नि. 528(अ), दिनांक 1 सितम्बर,
2006 के जरिए] | उक्त अधिसूचना में :
(i) शर्त (8) के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
(8) “इस अधिसूचना के अन्तर्गत लाभ प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37(ख) में सूचीबद्ध मदों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।”
(ii) स्पष्टीकरण में खण्ड (i) में “विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत जो उन्मुक्त आयात के योग्य हैं” शब्दों का विलोप किया जाएगा। |
| 5. | 91/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 1 सितम्बर, 2006
[संख्या.का.नि. सं. 529 (अ), दिनांक 5 सितम्बर,
2006 के जरिए] | उक्त अधिसूचना में :
(i) शर्त (8) के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
(8) “इस अधिसूचना के अन्तर्गत लाभ प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37 (ख) में सूचीबद्ध मदों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।”
(ii) स्पष्टीकरण में खण्ड (i) में “विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत जो उन्मुक्त आयात के योग्य हैं” शब्दों का विलोप किया जाएगा। |

[फा. सं. 605/52/2008-डीबीके]

एस.आर. मीना, अवर सचिव

नोट :—

- (1) मूल अधिसूचना संख्या 92/2004-सीमाशुल्क दिनांक 10 सितम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 125/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 816 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के जरिए प्रकाशित हुई थी।
- (2) मूल अधिसूचना संख्या 41/2005-सीमाशुल्क दिनांक 9 मई, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 282 (अ) दिनांक 9 मई, 2005 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 125/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 816 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के जरिए प्रकाशित हुई थी।
- (3) मूल अधिसूचना संख्या 73/2006-सीमाशुल्क दिनांक 10 जुलाई, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 408 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2006 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 63/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2008 के द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 346(अ), दिनांक 8 मई, 2008 के जरिए प्रकाशित हुई थी।
- (4) मूल अधिसूचना संख्या 90/2006-सीमाशुल्क दिनांक 1 सितम्बर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 528(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 125/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 816(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के जरिए प्रकाशित हुई थी।
- (5) मूल अधिसूचना संख्या 91/2006-सीमाशुल्क दिनांक 1 सितम्बर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 529(अ) दिनांक 1 सितम्बर, 2006 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 125/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 816(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के जरिए प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2009

No. 15/2009-CUSTOMS

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

S. No.	Notification Number, and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	92/2004—Customs, dated the 10th September, 2004 [Vide number G.S.R. 605(E), dated the 10th September, 2004]	In the said notification, in the opening paragraph,— (1) in clause (i), for the words and figures “and items not permitted to be imported as specified in para 3.12.4 of the policy” the following words, figures and letter shall be substituted, namely :— “and items not permitted to be imported in terms of Appendix -37B of the Hand Book of Procedure, Volume I” (2) in clause (ii), for the words and figures “the items not permitted to be imported as specified in para 3.12.4 of the policy” the following words, figures and letter shall be substituted, namely :— “the items not permitted to be imported in terms of Appendix 37B of the Hand Book of Procedure, Volume I.”
2.	41/2005—Customs, dated the 9th May, 2005 [Vide number G.S.R. 282(E), dated the 9th May, 2005]	In the said notification, in the opening paragraph,—the words, “which are freely importable” shall be omitted.
3.	73/2006—Customs, dated the 10th July, 2006 [Vide number G.S.R. 408(E), dated the 10th July, 2006]	In the said notification, in the explanation, in clause (i) of, the words, “which are freely importable under the Foreign Trade Policy” shall be omitted.
4.	90/2006—Customs, dated the 1st September, 2006 [Vide number G.S.R. 528(E), dated the 1st September, 2006]	In the said notification, (i) for condition (8) the following condition shall be substituted, namely,— (8) “that the benefits under this notification shall not be available to the items listed in Appendix-37B of the Hand Book of Procedure, Volume I.” (ii) in the explanation, in clause (i) the words, “which are freely importable under the Foreign Trade Policy” shall be omitted.
5.	91/2006—Customs, dated the 1st September, 2006 [Vide number G.S.R. 529(E), dated the 1st September, 2006]	In the said notification, (i) for condition (8) the following condition shall be substituted, namely,— (8) “that the benefits under this notification shall not be available to the items listed in Appendix-37B of the Hand Book of Procedure, Volume I.” (ii) in the explanation, in clause (i) the words, “which are freely importable under the Foreign Trade Policy” shall be omitted.

[F. No. 605/52/2008-DBK]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note :—

- (1) The principal notification No. 92/2004—Customs, dated the 10th September, 2004 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 605(E), dated the 10th September, 2004 and was last amended by notification No. 125/2008—Customs, dated the 21st November, 2008 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 816(E) dated the 21st November, 2008.
- (2) The principal notification No. 41/2005—Customs, dated the 9th May, 2005 was number G.S.R. 282(E), dated the 9th May, 2005 and was last amended by notification No. 125/2008—Customs, dated the 21st November, 2008 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 816(E) dated the 21st November, 2008.
- (3) The principal notification No. 73/2006—Customs, dated the 10th July, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 408(E), dated the 10th July, 2006 and was last amended by notification No. 63/2008—Customs, dated the 8th May, 2008 *vide* number G.S.R. 346(E) dated the 8th May, 2008.
- (4) The principal notification No. 90/2006—Customs, dated the 1st September, 2006 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 528(E), dated the 1st September, 2006 and was last amended by notification No. 125/2008—Customs, dated the 21st November, 2008 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 816(E) dated the 21st November, 2008.
- (5) The principal notification No. 91/2006—Customs, dated the 1st September, 2006 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 529(E), dated the 1st September, 2006 and was last amended by notification No. 125/2008—Customs, dated the 21st November, 2008 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary *vide* number G.S.R. 816(E) dated the 21st November, 2008.